

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से  
भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 29]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 18 जुलाई 2014—आषाढ 27, शक 1936

## भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कुछ नहीं.